Can I go see a game live? No, professional sports are restarting without live audiences. Will the sport be televised? Yes, but due to physical distancing, camera placements may be different than what we've seen before. How are athletes going to physically distance? Physical distancing should be practiced to the extent possible. During games, the area where players are seated off-field (e.g., bench, dugout, bullpen) will be reconfigured to allow for physical distancing. Players, coaches and employees are discouraged from physical contact, including high-fives and hugs. During a game, equipment such as balls and bats should be cleaned and disinfected, to the extent that it is possible. Will athletes have to wear masks while they play? No, but they should wear masks when not on the court or field. Tati t think the tit is possible. atu tied on 2 did on a trut v vintru pinin? atu will the sport be televised? atu tied on 2 did on a vivin pinin? atu will than on 2 did on to vivin pinin the treatment of the vivin pinin the treatment of the vivin pinin the pinin the origin of the vivin pinin the pinin the origin of the vivin pinin the pinin the pinin the pinin the origin of the vivin pinin the pinin t	Professional Sports without Live Audiences FAQs	दर्शकों की उपस्थिति रहित पेशेवर खेलों से संबंधित बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
No, professional sports are restarting without live audiences. Will the sport be televised? Yes, but due to physical distancing, camera placements may be different than what we've seen before. How are athletes going to physically distance? Physical distancing should be practiced to the extent possible. During games, the area where players are seated off-field (e.g., bench, dugout, bullpen) will be reconfigured to allow for physical distancing. Players, coaches and employees are discouraged from physical contact, including high-fives and hugs. During a game, equipment such as balls and bats should be cleaned and disinfected, to the extent that it is possible. Will athletes have to wear masks while they play? No, but they should wear masks when not on the court or field. Will athletes have to wear masks when not on the court or field.		(1414) 4g41 20 an 1410 An (1740)
without live audiences. Will the sport be televised? Yes, but due to physical distancing, camera placements may be different than what we've seen before. How are athletes going to physically distance? Physical distancing should be practiced to the extent possible. During games, the area where players are seated off-field (e.g., bench, dugout, bullpen) will be reconfigured to allow for physical distancing. Players, coaches and employees are discouraged from physical contact, including high-fives and hugs. During a game, equipment such as balls and bats should be cleaned and disinfected, to the extent that it is possible. Will athletes have to wear masks while they play? No, but they should wear masks when not on the court or field. ### Will athletes have to wear masks when not on the court or field. #### Will athletes have to wear masks when not on the court or field. ##### ### ### ### ##################	Can I go see a game live?	हूँ?
Yes, but due to physical distancing, camera placements may be different than what we've seen before. How are athletes going to physically distance? Physical distancing should be practiced to the extent possible. During games, the area where players are seated off-field (e.g., bench, dugout, bullpen) will be reconfigured to allow for physical distancing. Players, coaches and employees are discouraged from physical contact, including high-fives and hugs. During a game, equipment such as balls and bats should be cleaned and disinfected, to the extent that it is possible. Will athletes have to wear masks while they play? No, but they should wear masks when not on the court or field. Fi, ux शारीरिक दूरी के कारण, कैमरे लगाए जाने के स्थान उससे भिन्न हो सकते हैं जो हमने पहले देखें हैं। Ramis शारीरिक दूरी को अधिकतम संभव सीमा तक व्यवहार में लाना चाहिए। Ramis शारीरिक दूरी को अधिकतम संभव सीमा तक व्यवस्था शारीरिक दूरी को संभव बनाने के लिए बढ़ेलों के दौरान, खेल व बैट आदि उपकरणों को अधिकतम संभव सीमा तक साफ़ और विसंक्रमित किया जाना चाहिए। Ramis शारीरिक दूरी के कारण, कैमरे लगाए जाने के स्थान उससे भिन्न हो समे पहले देखें हैं।		
Yes, but due to physical distancing, camera placements may be different than what we've seen before. How are athletes going to physically distance? Physical distancing should be practiced to the extent possible. During games, the area where players are seated off-field (e.g., bench, dugout, bullpen) will be reconfigured to allow for physical distancing. Players, coaches and employees are discouraged from physical contact, including high-fives and hugs. During a game, equipment such as balls and bats should be cleaned and disinfected, to the extent that it is possible. Will athletes have to wear masks while they play? No, but they should wear masks when not on the court or field. Fi, ux शारीरिक दूरी के कारण, कैमरे लगाए जाने के स्थान उससे भिन्न हो सकते हैं जो हमने पहले देखें हैं। Ramis शारीरिक दूरी को अधिकतम संभव सीमा तक व्यवहार में लाना चाहिए। Ramis शारीरिक दूरी को अधिकतम संभव सीमा तक व्यवस्था शारीरिक दूरी को संभव बनाने के लिए बढ़ेलों के दौरान, खेल व बैट आदि उपकरणों को अधिकतम संभव सीमा तक साफ़ और विसंक्रमित किया जाना चाहिए। Ramis शारीरिक दूरी के कारण, कैमरे लगाए जाने के स्थान उससे भिन्न हो समे पहले देखें हैं।	Will the sport be televised?	क्या खेल का टेलीविजन पर प्रसारण होगा?
Physical distancing should be practiced to the extent possible. During games, the area where players are seated off-field (e.g., bench, dugout, bullpen) will be reconfigured to allow for physical distancing. Players, coaches and employees are discouraged from physical contact, including high-fives and hugs. During a game, equipment such as balls and bats should be cleaned and disinfected, to the extent that it is possible. Will athletes have to wear masks while they play? No, but they should wear masks when not on the court or field. Diving a distancing should be practiced to the extent that it is adaptive at the extent that it is a vinit the extent that it is possible. Including high-fives and hugs. Remise दी को अधिकतम संभव सीमा तक कर्मचारियों को हाई-फ़ाइव और गले मिलने सहित शारीरिक संपर्क से बचने की सलाह दी जाती है। Remise दी जाती है।	Yes, but due to physical distancing, camera placements may be different than	हाँ, पर शारीरिक दूरी के कारण, कैमरे लगाए जाने के स्थान उससे भिन्न हो सकते हैं जो हमने पहले
Physical distancing should be practiced to the extent possible. During games, the area where players are seated off-field (e.g., bench, dugout, bullpen) will be reconfigured to allow for physical distancing. Players, coaches and employees are discouraged from physical contact, including high-fives and hugs. During a game, equipment such as balls and bats should be cleaned and disinfected, to the extent that it is possible. Will athletes have to wear masks while they play? No, but they should wear masks when not on the court or field. Right के दौरान, खिलाड़ियों को मैदान से बाहर खेटाने के क्षेत्रों (जैसे बेंच, डगआउट, बुलपेन) की व्यवस्था शारीरिक दूरी को संभव बनाने के लिए बदली जाएगी। खेलाड़ियों, कोचों और कर्मचारियों को हाई-फ़ाइव और गले मिलने सहित शारीरिक संपर्क से बचने की सलाह दी जाती है। खेल के दौरान, बॉल व बैट आदि उपकरणों को अधिकतम संभव सीमा तक साफ़ और विसंक्रमित किया जाना चाहिए। ### खिलाड़ियों को खेल के दौरान मास्क पहनने होंगे? ### खिलाड़ियों को खेल के दौरान मास्क पहनने चाहिए।		खिलाड़ी शारीरिक दूरी कैसे रखेंगे?
are seated off-field (e.g., bench, dugout, bullpen) will be reconfigured to allow for physical distancing. Players, coaches and employees are discouraged from physical contact, including high-fives and hugs. During a game, equipment such as balls and bats should be cleaned and disinfected, to the extent that it is possible. Will athletes have to wear masks while they play? Will athletes have to wear masks when not on the court or field. adori के क्षेत्रों (जैसे बेंच, डगआउट, बुलपेन) की व्यवस्था शारीरिक दूरी को संभव बनाने के लिए बदली जाएगी। खिलाड़ियों, कोचों और कर्मचारियों को हाई-फ़ाइव और गले मिलने सहित शारीरिक संपर्क से बचने की सलाह दी जाती है। खेल के दौरान, बॉल व बैट आदि उपकरणों को अधिकतम संभव सीमा तक साफ़ और विसंक्रमित किया जाना चाहिए। क्या खिलाड़ियों को खेल के दौरान मास्क पहनने होंगे? नहीं, पर कोर्ट या मैदान में नहीं होने के दौरान उन्हें मास्क पहनने चाहिए।	Physical distancing should be practiced to	
discouraged from physical contact, including high-fives and hugs. During a game, equipment such as balls and bats should be cleaned and disinfected, to the extent that it is possible. Will athletes have to wear masks while they play? No, but they should wear masks when not on the court or field. Alt गले मिलने सहित शारीरिक संपर्क से बचने की सलाह दी जाती है। खेल के दौरान, बॉल व बैट आदि उपकरणों को अधिकतम संभव सीमा तक साफ़ और विसंक्रमित किया जाना चाहिए। क्या खिलाड़ियों को खेल के दौरान मास्क पहनने होंगे? नहीं, पर कोर्ट या मैदान में नहीं होने के दौरान उन्हें मास्क पहनने चाहिए।	are seated off-field (e.g., bench, dugout, bullpen) will be reconfigured to allow for	बैठाने के क्षेत्रों (जैसे बेंच, डगआउट, बुलपेन) की व्यवस्था शारीरिक दूरी को संभव बनाने के लिए
and bats should be cleaned and disinfected, to the extent that it is possible. Will athletes have to wear masks while they play? No, but they should wear masks when not on the court or field. अधिकतम संभव सीमा तक साफ़ और विसंक्रमित किया जाना चाहिए। अधिकतम संभव सीमा तक साफ़ और विसंक्रमित किया जाना चाहिए। क्या खिलाड़ियों को खेल के दौरान मास्क पहनने होंगे? नहीं, पर कोर्ट या मैदान में नहीं होने के दौरान उन्हें मास्क पहनने चाहिए।	discouraged from physical contact,	और गले मिलने सहित शारीरिक संपर्क से बचने
they play? No, but they should wear masks when not on the court or field. पहनने होंगे? नहीं, पर कोर्ट या मैदान में नहीं होने के दौरान उन्हें मास्क पहनने चाहिए।	and bats should be cleaned and disinfected, to the extent that it is	अधिकतम संभव सीमा तक साफ़ और विसंक्रमित
on the court or field. उन्हें मास्क पहनने चाहिए।		
###	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
###	###	###